



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 6, 2006/पौष 16, 1927

No. 19]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 6, 2006/PAUSA 16, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2006

का.आ. 21(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 52 (अ) तारीख 13 जनवरी, 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) तक के भूखंड का बाईपास सहित निर्माण करने (चार लेन का बनाने), अनुसूचन, प्रबंधन और प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार तारीख 22 फरवरी, 2005 को “दिना थांथी” और “दि हिन्दू” दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से आक्षेप प्राप्त हुये हैं और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार करके अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में तमिलनाडु राज्य में तिरुनेलवेली जिले के पलायमकोट्टई तालुक के मुनीरपल्लम गाँव के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, इसके साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

## अनुसूची

तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के 120.000 कि.मी. से 224.000 कि.मी. (मदुरई-कन्याकुमारी सेक्शन) पर अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त वर्णन।

जिला : तिरुनेलवेली

तालुक : पलायमकोट्टई

क्रम संख्या	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का प्रकार	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों के नाम
1	2	3	4	5	7	8
1	मुनीरपल्लम	13/2ए	शुष्क	निजी	50	एस. महुमुथा बीवी और 20 अन्य
		28/2ए2	शुष्क	निजी	1650	सुगंधी फिलिप और 42 अन्य
		28/2सी1ए	शुष्क	निजी	900	सुगंधी फिलिप और 42 अन्य
		28/2सी2ए	शुष्क	निजी	1550	सुगंधी पत्नी जे.एस. स्वामीनाथन और 42 अन्य
		29/1ए2	शुष्क	निजी	1050	वेलवन और 39 अन्य
		29/1सी1	शुष्क	निजी	700	वेलवन और 39 अन्य
		29/2ए2	शुष्क	निजी	100	वी.के. मोहम्मद नयानुथिन और 15 अन्य
		35/1ए2	शुष्क	निजी	850	लता मार्फत बागवति पत्नी चिदापरम और 32 अन्य
		35/1सी1	शुष्क	निजी	750	लता मार्फत बागवति पत्नी चिदापरम और 32 अन्य
		35/2ए2	शुष्क	निजी	650	जयकुमार और 41 अन्य
		35/2सी	शुष्क	निजी	150	जयकुमार और 41 अन्य
		35/5	शुष्क	निजी	350	इसाकिया पिल्लई (1) ए. सुबासरी (2)
		36/2ए2	शुष्क	निजी	12400	चेल्लाम्मल और 5 अन्य
		36/2सी1	शुष्क	निजी	1450	चेल्लाम्मल और 5 अन्य
		37/1ए1	शुष्क	निजी	50	वी.जी.पन्नीर दौस
		37/1ए3ए	शुष्क	निजी	1750	वी.जी.पन्नीर दौस
		37/2ए	शुष्क	निजी	300	वी.जी.पन्नीर दौस
		37/2सी1	शुष्क	निजी	300	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1ए1	शुष्क	निजी	148	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1बी2	शुष्क	निजी	35	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1इ1	शुष्क	निजी	93	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एव2	शुष्क	निजी	90	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1-आई-2	शुष्क	निजी	208	वी.जी.पन्नीर दौस

1	2	3	4	5	7	8
		39/1के1	शुष्क	निजी	82	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एल1	शुष्क	निजी	232	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एम2	शुष्क	निजी	130	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एन1	शुष्क	निजी	23	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1वाई1	शुष्क	निजी	203	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एक्स1	शुष्क	निजी	44	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एक्स2	शुष्क	निजी	292	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/1एक्स3	शुष्क	निजी	578	वी.जी.पन्नीर दौस
		39/5	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	450	तमिलनाडु सरकार
		39/6	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	900	तमिलनाडु सरकार
		39/7	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	1100	तमिलनाडु सरकार
		40/1ए1	शुष्क	निजी	450	एबेनेजर
		44/1ए	शुष्क	निजी	285	वी.जी.पन्नीर दौस और 4 अन्य
		45/1	शुष्क	निजी	3000	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		46/1	शुष्क	निजी	2800	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		47/1	शुष्क	निजी	2950	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		48/1ए	शुष्क	निजी	750	रामकृष्णन पुत्र सुब्बिया थेवर
		48/2ए1	शुष्क	निजी	2950	जयशंकर पुत्र एस. शंकरप्पन (1) और जेगाथीसन (2)
		48/2बी1	शुष्क	निजी	1250	लुईस सम टाईटस पुत्र लुईस एंथोनी (1) और सी.एम. सरोज पत्नी लुईस सम टाईटस
		49/1ए	शुष्क	निजी	1600	लुईस सम टाईटस पुत्र लुईस एंथोनी (1) और सी.एम. सरोज पत्नी लुईस सम टाईटस
		49/2ए	शुष्क	निजी	1350	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		50/1	शुष्क	निजी	800	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		51/1	शुष्क	निजी	2350	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		52/1ए	शुष्क	निजी	1250	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		52/3ए	शुष्क	निजी	450	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई

1	2	3	4	5	7	8
		52/4	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	100	तमिलनाडु सरकार
		54/3	शुष्क	निजी	250	सबाना सिंगिली पत्नी सरण सिंगिली
		54/4	शुष्क	निजी	200	हसनाथ पत्नी अमीर सुल्तान (1) सुलईका पत्नी कादर मोहम्मद (2)
		54/5	शुष्क	निजी	250	पी. मादासामी और 13 अन्य
		54/1ए2ए	शुष्क	निजी	150	वेल्लीया पुत्र दुर्इसामी
		54/1ए3ए	शुष्क	निजी	300	पी. मादासामी और 16 अन्य
		54/2ए	शुष्क	निजी	150	कगाथरन और 9 अन्य
		55/1ए1	शुष्क	निजी	250	जे. अरुल राज
		55/1बी1ए	शुष्क	निजी	100	वराथन पुत्र सुंदर राज
		55/1बी6ए	शुष्क	निजी	50	पुन्नमपलाथम्मल पत्नी मुथमलिगम और 10 अन्य
		55/1बी7ए	शुष्क	निजी	100	सेनबगम पुत्र वेलायुथम पिल्लई
		55/1बी11ए	शुष्क	निजी	300	हरिहरन पुत्र महालिगम
		55/1सी1	शुष्क	निजी	300	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		58/1ए	शुष्क	निजी	1450	सुदालीमुथु कोनर और 2 अन्य
		59/1ए1	शुष्क	निजी	150	शनमुगम कोनर और 2 अन्य
		59/1बी1	शुष्क	निजी	500	शनमुगम कोनर और 6 अन्य
		59/3	शुष्क	निजी	300	सुदालीमुथु कोनर और 3 अन्य
		59/4	शुष्क	निजी	150	सेबास्थियन पुत्र शिलेऊवाई नादर
		59/2बी1	शुष्क	निजी	50	सुदालीमुथु कोनर और 2 अन्य
		68/2ए	शुष्क	निजी	150	ताईअम्मल और 8 अन्य
		68/2बी	शुष्क	निजी	200	सी.एम. सरोजा पत्नी डॉ. जे. जोसेफ दौस
		68/2सी	शुष्क	निजी	250	के. वसंत और 5 अन्य
		68/2डी	शुष्क	निजी	650	ताईअम्मल और 8 अन्य
		68/2इ	शुष्क	निजी	400	ताईअम्मल और 5 अन्य
		69/3ए1	शुष्क	निजी	300	जयसुरेश जयराम पुत्र पेरियानयामम पोन्नुसामी
		69/3बी1ए	शुष्क	निजी	200	राजालिगम पुत्र ईय्यादुर्इ नादर
		69/3सी1	शुष्क	निजी	250	पेरुमाथम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर कुमारेसन (2)
		69/3डी1ए	शुष्क	निजी	25	पेरुमाथम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर

1	2	3	4	5	7	8
		69/3डी2ए	शुष्क	निजी	100	श्रीमती पत्नी सीतारमण
		69/3इ1	शुष्क	निजी	100	श्रीमती पत्नी सीतारमण
		69/3एफ1	शुष्क	निजी	200	जेयापंडी पुत्र थंगासामी नादर
		69/3जी1	शुष्क	निजी	200	मसिल्लामणि, पुत्र जेबासेयन (1) अरोक्कियम (2)
		69/3एच1	शुष्क	निजी	200	चेत्तिया (1) पुत्र जेबासेयन जेसुनिया (2)
		69/3आई-1	शुष्क	निजी	200	चेत्तिया (1) पुत्र जेबासेयन जेसुनिया और 2 अन्य
		70/3ए1	शुष्क	निजी	650	एंथोनी मुथु और 9 अन्य
		71/3ए	शुष्क	निजी	200	अरुणसात्म और 14 अन्य
		79/2	शुष्क	निजी	300	सेजमेरी स्कूल
		80/2	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	4000	तमिलनाडु सरकार
		81/2	शुष्क	निजी	1150	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		82/2	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	2900	तमिलनाडु सरकार
		83/1बी	शुष्क	निजी	1150	के. मुक्किया और 11 अन्य
		83/2बी	शुष्क	निजी	2500	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		159/4बी	शुष्क	निजी	3650	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		161/1ए2	शुष्क	निजी	250	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		181/1बी2	शुष्क	निजी	50	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		161/1सी2	शुष्क	निजी	100	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		161/1डी2	शुष्क	निजी	100	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		161/4	पोरमबोके	सरकारी (राज्य)	50	तमिलनाडु सरकार
		162/1बी	शुष्क	निजी	900	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		162/2बी	शुष्क	निजी	50	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		170/1बी	शुष्क	निजी	600	इय्याकुट्टी और 16 अन्य
		170/2बी	शुष्क	निजी	850	पलाई इरुथया ब्रदर्स सबाई
		171/2	शुष्क	निजी	1850	चेत्तिया थेवर और 61 अन्य
		172/2	शुष्क	निजी	1100	थिरुवैकटम और 39 अन्य
		174/1ए1बी	शुष्क	निजी	950	साहुलहम्मेद पुत्र के.एस.ए.

1	2	3	4	5	7	8
		174/1ए2बी	शुष्क	निजी	900	अरुमुगम पुत्र शंकरण
		174/1ए3बी	शुष्क	निजी	1000	सुब्बियापिल्लई पुत्र सूर्यनारायणन
		174/1ए4बी	शुष्क	निजी	1150	पेटचिमुथु पुत्र रामकृष्णन
		174/1बी2	शुष्क	निजी	200	सुब्बुलक्ष्मी पत्नी थंगाराज
		174/2बी	शुष्क	निजी	1400	विश्वनाथन और 15 अन्य
		222/1ए1बी	शुष्क	निजी	3622	वेल्लाथई अम्मल और 109 अन्य
		222/1ए1सी	शुष्क	निजी	384	वेल्लाथई अम्मल और 109 अन्य
		222/1ए2	शुष्क	निजी	250	लिगादुरई पुत्र इस्साकिमुथु नादर
		222/1ए3	शुष्क	निजी	250	सुयाम्बु नादर पुत्र इस्साकिमुथु नादर
		1185/1	शुष्क	निजी	102	वी.जी. पन्नीर दौस
		1185/2	शुष्क	निजी	161	वी.जी. पन्नीर दौस
		1185/3	शुष्क	निजी	226	वी.जी. पन्नीर दौस
		1185/44ए	शुष्क	निजी	900	वी.जी. पन्नीर दौस और 3 अन्य
		1185/45ए	शुष्क	निजी	50	वी.जी. पन्नीर दौस और 3 अन्य
		1189/47	शुष्क	निजी	78	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/48	शुष्क	निजी	210	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/49	शुष्क	निजी	224	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/50	शुष्क	निजी	224	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/51	शुष्क	निजी	35	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/52	शुष्क	निजी	186	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/53	शुष्क	निजी	224	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1189/54	शुष्क	निजी	110	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)



1	2	3	4	5	7	8
		1223/25	शुष्क	निजी	190	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1223/26	शुष्क	निजी	40	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1223/28बी	शुष्क	निजी	379	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)
		1223/29बी	शुष्क	निजी	466	सुब्बिया थेवर पुत्र सुब्बिया (1) वेल्लाथईम्मल पत्नी सुब्बिया थेवर (2)

[फा. सं. भाराप्र्रा/तक./एलए/एम्के/मुनि 3(डी) 1/2005/एलए-97]

प्रभकर, उप-सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

(Department of Road Transport and Highways)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2006

S.O. 21(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways number S.O.52(E), dated the 13<sup>th</sup> January, 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the public purpose of building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highways No.7, including the bypass, on the stretch of land from km 120.000 to km 224.000 (Madurai – Kanniyakumari Section) in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification was published in the "Dina Dhanthi" and "The Hindu", both dated the 22<sup>nd</sup> February, 2005;

And whereas objections have been received from the persons interested in the land and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report in respect of Muneerpallam village of Palayamkottai Taluk, Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu, to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto, shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.



**SCHEDULE**

Brief Description of land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 120.000 to 224.000 Km (Madurai to Kanniyakumari Section) on National Highways No.7 in Tirunelveli District in the State of Tamil Nadu.

**District : Tirunelveli**

**Taluk : Palayamkottai**

Serail number	Name of the village	Survey number	Nature of land	Type of land	Area of Land (in square metres)	Name of the owners
1	2	3	4	5	7	8
1	Muneerpallam	13/2A	Dry	Private	50	S. Mahumutha Beevi and 20 others
		28/2A2	Dry	Private	1650	Suganthi Philip and 42 others
		28/2C1A	Dry	Private	900	Suganthi Philip and 42 others
		28/2C2A	Dry	Private	1550	Suganthi wife of J.S. Swaminathan and 42 others
		29/1A2	Dry	Private	1050	Velavan and 39 others
		29/1C1	Dry	Private	700	Velavan and 39 others
		29/2A2	Dry	Private	100	V.K. Mohamed Nyanuthin and 15 others
		35/1A2	Dry	Private	850	Latha @ Bagavathi wife of Chidaparam and 32 others
		35/1C1	Dry	Private	750	Latha @ Bagavathi wife of Chidaparam and 32 others
		35/2A2	Dry	Private	650	Jaikumar and 41 others
		35/2C	Dry	Private	150	Jaikumar and 41 others
		35/5	Dry	Private	350	Esakkiya Pillai (1) A. Subasri (2)
		36/2A2	Dry	Private	12400	Chellammal and 5 others
		36/2C1	Dry	Private	1450	Chellammal and 5 others
		37/1A1	Dry	Private	50	V.G. Panneer Doss
		37/1A3A	Dry	Private	1750	V.G. Panneer Doss
		37/2A	Dry	Private	300	V.G. Panneer Doss
		37/2C1	Dry	Private	300	V.G. Panneer Doss
		39/1A1	Dry	Private	148	V.G. Panneer Doss
		39/1B2	Dry	Private	35	V.G. Panneer Doss
		39/1E1	Dry	Private	93	V.G. Panneer Doss
		39/1H2	Dry	Private	90	V.G. Panneer Doss
		39/1-I-2	Dry	Private	208	V.G. Panneer Doss
		39/1K1	Dry	Private	82	V.G. Panneer Doss
		39/1L1	Dry	Private	232	V.G. Panneer Doss
		39/1M2	Dry	Private	130	V.G. Panneer Doss

38 GI/L - 2

1	2	3	4	5	7	8
		39/1N1	Dry	Private	23	V.G. Panneer Doss
		39/1Y1	Dry	Private	203	V.G. Panneer Doss
		39/1X1	Dry	Private	44	V.G. Panneer Doss
		39/1X2	Dry	Private	292	V.G. Panneer Doss
		39/1X3	Dry	Private	578	V.G. Panneer Doss
		39/5	Poramboke	Government (State)	450	Government of Tamil Nadu
		39/6	Poramboke	Government (State)	900	Government of Tamil Nadu
		39/7	Poramboke	Government (State)	1100	Government of Tamil Nadu
		40/1A1	Dry	Private	450	Ebenezar
		44/1A	Dry	Private	285	V.G. Panneer Doss and 4 others
		45/1	Dry	Private	3000	Palai Iruthaya Brothers sabai
		46/1	Dry	Private	2800	Palai Iruthaya Brothers sabai
		47/1	Dry	Private	2950	Palai Iruthaya Brothers sabai
		48/1A	Dry	Private	750	Ramakrishnan son of Subbiah Thevar
		48/2A1	Dry	Private	2950	Jeyasankar son of S. Sankarapan (1) and Jegatheesan (2)
		48/2B1	Dry	Private	1250	Louis sam Titus S/o. Louis Antony (1) and C.M. Saroja wife of Louis sam Titus
		49/1A	Dry	Private	1600	Louis sam Titus son of Louis Antony (1) and C.M. Saroja wife of Louis sam Titus
		49/2A	Dry	Private	1350	Palai Iruthaya Brothers sabai
		50/1	Dry	Private	800	Palai Iruthaya Brothers sabai
		51/1	Dry	Private	2350	Palai Iruthaya Brothers sabai
		52/1A	Dry	Private	1250	Palai Iruthaya Brothers sabai
		52/3A	Dry	Private	450	Palai Iruthaya Brothers sabai
		52/4	Poramboke	Government (State)	100	Government of Tamil Nadu
		54/3	Dry	Private	250	Sabana Singili W/o. Saran Singili
		54/4	Dry	Private	200	Hasanath wife of Ameer Sulthan (1) Sulaika wife of Kathar Mohammed (2)
		54/5	Dry	Private	250	P. Madasamy and 13 others

1	2	3	4	5	7	8
		54/1A2A	Dry	Private	150	Velliah son of Duraisamy
		54/1A3A	Dry	Private	300	P. Madasamy and 16 others
		54/2A	Dry	Private	150	Kangatharan and 9 others
		55/1A1	Dry	Private	250	J. Arul Raj
		55/1B1A	Dry	Private	100	Varathan son of Sundar raj
		55/1B6A	Dry	Private	50	Ponnampalathammal wife of Muthramlingam and 10 others
		55/1B7A	Dry	Private	100	Shenbagam son of Velautham pillai
		55/1B11A	Dry	Private	300	Hariharan son of Mahalingam
		55/1C1	Dry	Private	300	Palai Iruthaya Brothers sabai
		58/1A	Dry	Private	1450	Sudalimuthu Konar and 2 others
		59/1A1	Dry	Private	150	Shanmuga Konar and 2 others
		59/1B1	Dry	Private	500	Shanmuga Konar and 6 others
		59/3	Dry	Private	300	Sudalimuthu Konar and 3 others
		59/4	Dry	Private	150	Sébasthiyan son of Siluvai Nadar
		59/2B1	Dry	Private	50	Sudalimutu Konar and 2 others
		68/2A	Dry	Private	150	Taiammal and 8 others
		68/2B	Dry	Private	200	C.M. Saroja wife of Dr.J. Joseph Doss
		68/2C	Dry	Private	250	K. Vasantha and 5 others
		68/2D	Dry	Private	650	Taiammal and 8 others
		68/2E	Dry	Private	400	Taiammal and 5 others
		69/3A1	Dry	Private	300	Jeyasuresh Jeyaraj son of Periyannayagam Ponnusamy
		69/3B1A	Dry	Private	200	Rajalingam son of Iyyadurai Nadar
		69/3C1	Dry	Private	250	Perumathammal wife of Subbiah Thevar Kumaresan (2)
		69/3D1A	Dry	Private	25	Perumathammal wife of Subbiah Thevar
		69/3D2A	Dry	Private	100	Srimathi wife of Seetharaman
		69/3E1	Dry	Private	100	Srimathi wife of Seetharaman
		69/3F1	Dry	Private	200	Jeyapandi son of Thangasamy Nadar
		69/3G1	Dry	Private	200	Masilamani, S/o. Jebaseyan (1) Arokkiyam (2)
		69/3H1	Dry	Private	200	Chelliah (1) S/o. Jebaseyan Jesunia (2)

1	2	3	4	5	7	8
		69/3-I-1	Dry	Private	200	Cheillah (1) S/o. Jebaseyan and 2 others
		70/3A1	Dry	Private	650	Antony Muthu and 9 others
		71/3A	Dry	Private	200	Arunasalam and 14 others
		79/2	Dry	Private	300	Rosemary School
		80/2	Poramboke	Government (State)	1000	Government of Tamil Nadu
		81/2	Dry	Private	1150	Palai Iruthaya Brothers sabai
		82/2	Poramboke	Government (State)	2900	Government of Tamil Nadu
		83/1B	Dry	Private	1150	K. Mukkiah and 11 others
		83/2B	Dry	Private	2500	Palai Iruthaya Brothers sabai
		159/4B	Dry	Private	3650	Palai Iruthaya Brothers sabai
		161/1A2	Dry	Private	250	Palai Iruthaya Brothers sabai
		161/1B2	Dry	Private	50	Palai Iruthaya Brothers sabai
		161/1C2	Dry	Private	100	Palai Iruthaya Brothers sabai
		161/1D2	Dry	Private	100	Palai Iruthaya Brothers sabai
		161/4	Poramboke	Government (State)	50	Government of Tamil Nadu
		162/1B	Dry	Private	900	Palai Iruthaya Brothers sabai
		162/2B	Dry	Private	50	Palai Iruthaya Brothers sabai
		170/1B	Dry	Private	600	Iyyakutti and 16 others
		170/2B	Dry	Private	850	Palai Iruthaya Brothers sabai
		171/2	Dry	Private	1850	Cheillah Thevar and 61 others
		172/2	Dry	Private	1100	Thiruvankatam and 39 others
		174/1A1B	Dry	Private	950	Sahulhammed son of K.S.A.
		174/1A2B	Dry	Private	900	Arumugam son of Sankaran
		174/1A3B	Dry	Private	1000	Subbiahpillai son of Suriyanarayanan
		174/1A4B	Dry	Private	1150	Petchimuthu son of Ramakrishnan
		174/1B2	Dry	Private	200	Subbulakshmi wife of Thangaraj
		174/2B	Dry	Private	1400	Viswanathan and 15 others
		222/1A1B	Dry	Private	3622	Vellathai Ammal and 109 others

1	2	3	4	5	7	8
		222/1A1C	Dry	Private	384	Vellathai Ammal and 109 others
		222/1A2	Dry	Private	250	Lingadurai son of Essakkimutu nadar
		222/1A3	Dry	Private	250	Suyambu Nadar S/o. Essakkimuthu Nadar
		1185/1	Dry	Private	102	V.G. Panneer Doss
		1185/2	Dry	Private	161	V.G. Panneer Doss
		1185/3	Dry	Private	226	V.G. Panneer Doss
		1185/44A*	Dry	Private	900	V.G. Panneer Doss and 3 others
		1185/45A	Dry	Private	50	V.G. Panneer Doss and 3 others
		1189/47	Dry	Private	78	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/48	Dry	Private	210	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/49	Dry	Private	224	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/50	Dry	Private	224	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/51	Dry	Private	35	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/52	Dry	Private	186	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/53	Dry	Private	224	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/54	Dry	Private	110	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/55	Dry	Private	23	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1189/56	Dry	Private	16	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/12	Dry	Private	13	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/13	Dry	Private	150	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/14	Dry	Private	150	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/15	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)

1	2	3	4	5	7	8
		1223/16	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/17	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/18	Dry	Private	215	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/19	Dry	Private	216	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/20	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/21	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/22	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/23	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/24	Dry	Private	222	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/25	Dry	Private	190	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/26	Dry	Private	40	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/28B	Dry	Private	379	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)
		1223/29B	Dry	Private	466	Subbiah Thevar son of Subbiah (1) Vellathaiammal wife of Subbiah Thevar (2)

[F. No. NHAI/Tech./LA/MK/Mune 3(D) 1/2005/LA-97]

PRABHAKAR, Dy. Secy.